

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014—श्रावण 3, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 9 जुलाई 2014

क्र. 656.—जनपद पंचायत छतरपुर, जिला छतरपुर के क्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत मौराह, बगौता, सौरा, बरकौहा, हमा एवं पठापुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 125(1) के अन्तर्गत अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ग्राम पंचायतों की सीमा से अपवर्जित करने का अभिप्राय प्रकट करता है अनुसूची-एक में प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम पंचायतों की सीमा से अपवर्जित हो जाने पर ग्राम पंचायतों की चर्तुसीमा अनुसूची-दो के अनुसार हो जावेगी.

अनुसूची-एक में वर्णित क्षेत्र के किसी भी स्थानीय व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात में आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में कलेक्टर, जिला छतरपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं प्राप्त आपत्तियों पर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची-एक

पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र—

क्र.	तहसील/जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम	अपवर्जित किये जाने वाले खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	छतरपुर	मौराहा	मौराहा	1 से 49, 55-61-62-63-64-65-66-67-68 69-70-1068-1097 से 1114, 1117 से 1133, 1135 से 1166 तक.	205-04	सम्पूर्ण
2	छतरपुर	बगौता	बगौता	01 से 51 तक, 211 से 243 तक, 485 से 631 तक, 904 से 962 तक, 1074 से 1554 तक, 1556 से 1995 तक.	2817.97	सम्पूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	छतरपुर	बगौता	अमानगंज	111, 124 से 129 तक, 143 से 154 तक, 196 से 228 तक, 243 से 328 तक.	336.4975	सम्पूर्ण
3		सौरा	सौरा	258, 259, 260, 261, 262, 263, 273, 274, 307 से 323, 329 से 342, 346 से 358, 367 से 444, 801 से 829, 831 से 857, 859 से 930, 932 से 1041, 1043 से 1328, 1389, 1390, 1391, 1416 से 1440, 1450 से 1456, 1464 से 1500, 1523 से 1534, 1537 से 1655, 1657 से 2146, 2158 से 2178, 2182 से 2185, 2188 से 2220, 2225 से 2362.	1552-600	सम्पूर्ण
4		बरकौहा	चन्द्रपुरा	1, 2-24-25, 60 से 100, 403 से 469, 689, 403.	162-28	सम्पूर्ण
			पलौठा	291-292-293-299-300-329, 330, 331, 332, 463 से 532, 539 से 626, 663, 664, 665, 671 से 757, 792.	417-7025	सम्पूर्ण
5		हमा	टड़ेरा	308 से 317, 326, 328 से 333	17-3775	सम्पूर्ण
6		पठापुर	नारायणपुरा	421, 522 से 524, 532 से 619	124-895	सम्पूर्ण
			बकायन	158 से 436, 499, 572 से 650	610-02	सम्पूर्ण

अनुसूची-दो

अपवर्जन के पाश्चात् ग्राम पंचायतों की चूर्तसीमा निम्नानुसार होगी:—

(1) ग्राम पंचायत-मौराहा

दिशा (1)	खसरा क्रमांक (2)
उत्तर दिशा	50, 51, 52, 53, 54, 118, 119, 120, 121 से 127 तक 131, 132, 133, 184
पूर्व दिशा	744, 743, 775, 777, 776, 778, 786, 787, 795, 794, 792, 793
दक्षिण दिशा	1642, 1643, 1640, 1641, 1621, 1622, 1623, 1624, 1644, 1645, 1139, 1652, 1650, 1651
पश्चिम दिशा	1349, 1354, 1353, 1348, 1346, 1350, 1351, 1352, 1347, 1345, 1339, 1340, 1341, 1338.

(2) ग्राम पंचायत-बगौता

उत्तर दिशा	1920, 2216, 2217, 1060, 1256, 1255, 1071, 1072, 1073, 964, 963, 904, 897, 926, 644, 643, 642, 633, 634, 700, 496 तक.
पूर्व दिशा	2215, 2131, 2130, 1996, 1997, 1998, 2254, 2257 तक.
दक्षिण दिशा	2682, 2681, 2677, 2678, 2683, 2715, 2684, 2675, 2677, 2673, 2669, 2667, 2668, 2389 तक.
पश्चिम दिशा	247, 253, 268, 210, 171, 169, 165, 164, 163, 113, 75, 52, 53, 56, 62, 65, 88, 90, 91, 96, 2656, 2663, 2654 तक.

(1)

(2)

(3) ग्राम पंचायत-सौरा

उत्तर दिशा	34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 92, 93, 94, 95, 130, 131, 134, 140, 141, 200, 201, 202, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217
पूर्व दिशा	227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 257, 265, 272, 275, 366, 365, 359, 360, 355, 328, 325, 324, 306, 303, 299, 298, 297/2, 297/2,
दक्षिण दिशा	445, 2224, 2221, 2222, 2187, 2186, 2181, 2157, 2156, 2149, 2148, 2146, 478, 1488, 1489, 1490, 1497, 1498, 1514, 1515, 1535, 1536, 1516, 1520, 1522, 1509, 1508, 1451, 1449, 1446, 1444, 1443, 1442, 1441, 1414, 1415, 1392/1, 1392/2, 1387, 1388, 1291, 1292, 1293, 1298, 1299, 1300,
पश्चिम दिशा	1312, 1313, 1314, 1322, 1323, 1324, 1325, 867, 868, 869, 861, 859, 893, 902, 913, 912, 910, 909, 933, 932, 916, 917, 931, 929, 927, 926, 943, 944, 945, 942, 941, 925, एवं 01 एवं 02

(4) ग्राम पंचायत-बरकौहा

उत्तर दिशा	कांटी मौजा से लगा नाला से 203, 208, 232/4, 233/2, 237/3, 237/2, 238/2, 1259, 1260, 1264 तक.
पूर्व दिशा	1573/2, 1392, 1348, 1337, बरायचखेरा होते हुए चन्द्रपुराहार काली पहाड़ी होते हुये 222, 214, 215, 167, 155 एनएच-75 तक.
दक्षिण दिशा	चन्द्रपुरा रामघाट नाला होते हुये 554, 595, 572, 625, 640, 666, 675, 682, 521, 503 तक.
पश्चिम दिशा	391, 400, 114, 113, 111, चन्द्रपुरा के बगल से होते हुये पलौठा हार में 799, 817, 831, से सरानी मौजा तक, 436, 435, 348, 335, 255, 109, 110, 45, 24 तक.

(5) ग्राम पंचायत-हमा

उत्तर दिशा	307 चरनोई, 306 पहाड़ म. प्र. शासन, 319, 320, 325, 327 श्यामसुन्दर नायक, मे. ग्रेनाईट इण्डिया.
पूर्व दिशा	290 कृष्ण औतार पचौरी, 289, 288, 287 कमला पत्ति परमानंद नायक, 286 राकेश बिहारी गोस्वामी, मौजा टड़ेरा.
दक्षिण दिशा	मौजा सौरा,
पश्चिम दिशा	मौजा सौरा,
नगरपालिका क्षेत्र दक्षिण दिशा में	308 से 317 तक 326, 328 से 333 तक.

(6) ग्राम पंचायत-पठापुर

उत्तर दिशा	मौजा नारायणपुरा-520, 475, 36, 4, 3, 8, मौजा पठापुर-56, 55, 53, 46, 45, 40, 14, 11, 10, 9, 3, 4, 5, 1, 18, 20, 10, 103, तक.
पूर्व दिशा	मौजा पठापुर-1375, 1374, 406, 404, 389, 390, 389, 276, 375, 321, 296, 294/3, 183, 180, 176, 174, मौजा नारायणपुरा-339, 358, 380, 388, 389, तक.
दक्षिण दिशा	मौजा पठापुर-1490, 1489, 1493, 1496, 1497, 1499, 1502, 1546, 16, 1592, 1499, 1490, 1409, 1406, 1399, 1380, मौजा नारायणपुरा-220, 219, 221, 254, 260, 261, 262, 263, 335/2, 336, 338 तक.
पश्चिम दिशा	मौजा पठापुर-104, 109, 110, 111, 112, 115, 35, 36, 837, 913, 923, 1103, 1107, 1196, 1118, 1122, 1124, 1133, मौजा नारायणपुरा-190, 11/2, 194/1, 196, 199/2, 200, 201, 214, तक.

मसूद अख्तर, कलेक्टर.